



# विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान

(विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तहत एक स्वशासी अनुसंधान एवं विकास संस्थान)

विज्ञान पथ, पश्चिम बड़ागाँव, गड़चुक, गुवाहाटी- 781035, असम, भारत

**INSTITUTE OF ADVANCED STUDY IN SCIENCE AND TECHNOLOGY**

(An Autonomous R& D Institute of Department of Science & Technology, GoI)

Vigyan Path, Paschim Boragaon, Garchuk, Guwahati- 35, Assam, India



पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए अन्डर्टेकिंग

निदेशक, आई.ए.एस.एस.टी, विज्ञान पथ, पश्चिम बड़ागाँव, गुवाहाटी-781035, असम को जमा करवाने हेतु  
आई.ए.एस.एस.टी के नियमित कर्मचारी

## UNDERTAKING FOR SUBMISSION TO RECEIVE IDENTITY CARD

Submitted to the Director, IASST, Vigyan Path, Paschim Boragaon, Garchuk, Guwahati-781035,

Assam on Date:

### REGULAR STAFF OF IASST

मैं, प्रो./डॉ./श्री/श्रीमती/सुश्री.....पुत्र या पुत्री.....  
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान (आई.ए.एस.एस.टी) में ..... के  
पद पर नियमित कर्मचारी के रूप में ..... विभाग/अनुभाग के तहत दिनांक  
..... प्रभावी कार्यदिवस से कार्यरत हूँ। (नियुक्ति आदेश की प्रति संलग्न है)।

I, Prof./Dr/Mr./Mrs./Ms \_\_\_\_\_ S/O or D/O of \_\_\_\_\_ am working  
in the Institute of Advanced Study in Science and Technology (IASST) as a regular staff in the position  
of \_\_\_\_\_ in the  
division/section \_\_\_\_\_ w.e.f. \_\_\_\_\_ (Copy of appointment order  
enclosed).

मैं एतद्वारा नियमित स्टाफ सदस्य को पहचान पत्र (आईडी) जारी करने के लिए संस्थान प्राधिकरण द्वारा निर्धारित  
नियमों और शर्तों के लिए यह वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ और अपनी स्वीकृति देता हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि  
मैं अधिसूचना संख्या ..... दिनांक..... के तहत अधिसूचित संस्थान के आईडी  
कार्ड जारी करने के लिए निर्धारित सभी नियमों और विनियमों का पालन करूंगा। मेरे द्वारा संस्थान के नियमों की अवज्ञा  
किए जाने पर आई.ए.एस.एस.टी के प्राधिकारी मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के सभी अधिकार सुरक्षित  
रखते हैं/ I hereby furnish this undertaking and convey my acceptance to the terms and conditions laid down  
by the institute authority for issue of Identity (ID) card to regular staff member. I also declare that I shall  
abide by all the Rules and Regulations prescribed for issue of the ID card of the institute as notified vide  
Notification No..... dated, ..... I understand that the IASST  
authority reserves the right to take any disciplinary action against me, if the provision of the rules and  
regulations is found to be flouted by me bringing disrepute to the institution.

हस्ताक्षर/ Signature

नाम/ Name (Block letters):

पद/ Designation:

विभाग/ स्थापना/ अनुभाग Division/Establishment/Section